



Uniroyal Industries Ltd.

Works, Regd. & Corporate Office :
365, Phase II, Ind. Estate
PANCHKULA - 134 113 INDIA
Phones : 2593592, 5066531-33
Fax : 0091-172-2591837
CIN No. L18101HR1993PLC033167
Website : www.uniroyalgroup.com
E-mail : info@uniroyalgroup.com

Dated : 20.05.2024

Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai-400001

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are sending herewith copies of newspaper publication of Financial Results for the quarter/year ended 31 March, 2024 published in Newspaper(s) "Business Standard (English and Hindi)" dated 20th May, 2024.


This is for the information of the general public as well as members of the Exchange.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Uniroyal Industries Ltd.

FOR UNIROYAL INDUSTRIES LTD.


(Akhil Mahajan) **MG. DIRECTOR/DIRECTOR**
Executive Director

DIN:-00007598

(Encl. As above)



Central Marketing Office :
D-104, 1st Floor, Sector-10, Noida-201301 INDIA
Phones : 0120 - 4573706, 4573707, 4573708
E-mail : noida@uniroyalgroup.com, uniroyal@airtelmail.in



ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED
 Registered Office: Indian Rayon Compound, Varval, Gujarat - 382256
 Branch Office: G-Corp Tech Park, 8th floor, Kasar Vadavali, Ghodbunder Road, Thane, MH-400601

DEMAND NOTICE (under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
 SUBSTITUTED SERVICE OF NOTICE (under Section 13(1) of the SARFAESI Act and Enforcement of Security Interest Act, 2002)
 Notice is hereby given to the borrowers as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availed by them from Aditya Birla Housing Finance Limited (ABHFL), their loan accounts have been classified as Non-Performing Assets in the books of the Company as per RBI guidelines thereto. Thereafter, ABHFL has issued demand notices under section 13(1) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) on the last known addresses of the said borrowers thereby calling upon and demanding from them to repay the entire outstanding amount together with interest at the applicable rate on the aforesaid amount and incidental expenses, cost, charges etc. as stated in the said demand notices. However, the demand notice is also being served by way of publication, as per Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SARFAESI Rules).

Sr. No.	Name and Address Borrower/ Co-Borrower and Guarantor / Co-Guarantor / Loan A/C No.	NPA Date	Date of Demand Notice	Amount due as per Demand Notice (as on Date)
1	1. MR. DHIRAJ KUMAR Khanna No. 321, 322, Khata No. 210274, 751776, 758779, Village Taraf Jodhpur Hababasi No. 77 Basti, Jodhpur, Ludhiana, Punjab-141007 2. MRS. MEENA RANI Khanna No. 321, 322, Khata No. 210274, 751776, 758779, Village Taraf Jodhpur Hababasi No. 77 Basti, Jodhpur, Ludhiana, Punjab-141007 3. MR. DHIRAJ KUMAR Khanna No. 100203 SI No. 5, Basti Jodhpur Ludhiana, Punjab-141007 4. MRS. MEENA RANI Khanna No. 100203 SI No. 5, Basti Jodhpur Ludhiana, Punjab-141007 5. MR. DHIRAJ KUMAR C/O M/S M.R. Khil Fabrics 100245 SI No. 5, Basti Jodhpur Ludhiana, Punjab-141007 Loan Account No. LNUDLAP-0318004222	18.05.2024	14.05.2024 Old notice dated 14.10.2022 & 14.06.2023 withdrawn. This publication to be treated as Effective notice.	Rs. 17,00,892.33/- (Rupees Seventeen Lakh Eight Hundred Ninety Two and Thirty Three Paise Only) by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 13.05.2024.
2	1. MAKANA KHATOON (In the Capacity of Available Legal Heir Of Mahal Umar Farooque) Village Kulwala, Khanna No. 1511, 12, 13, 16, 19, 20, 211, 22, 23, Khata No. 232223, Star City Near Gopal Nagar Tehsil And District Ludhiana, Ludhiana, Punjab-141007 2. MAKANA KHATOON (In the Capacity of Available Legal Heir Of Mahal Umar Farooque) Village Kulwala, Khanna No. 1511, 12, 13, 16, 19, 20, 211, 22, 23, Khata No. 232223, Star City Near Gopal Nagar Tehsil And District Ludhiana, Ludhiana, Punjab-141007 3. MAKANA KHATOON (In the Capacity of Available Legal Heir Of Mahal Umar Farooque) House Number 86, Street Number 6, Tibba Road, New Star City Colony, Ludhiana, Punjab-141007 4. MAKANA KHATOON (In the Capacity of Available Legal Heir Of Mahal Umar Farooque) House No. 2943, Street No. UZ, Ganesh Nagar Link Road, Millerganj, Ludhiana, Millerganj, Punjab-141003 Loan Account No. LNUDLAP-0218015625	18.05.2024	18.05.2024 Old notice dated 24.08.2022 withdrawn. This publication to be treated as Effective notice.	Rs. 6,18,844.18/- (Rupees Six Lakh Nineteen Thousand Eight Hundred Forty Four and Eighteen Paise Only) by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 13.05.2024.

DESCRIPTION OF IMMovable PROPERTY/PROPERTIES MORTGAGED: All That Piece And Parcel Of Khanna No. 321-322-323, Khata No. 210274-751776-758779, Admeasuring 55.50 Yds. Situated At Jambhadra 1995-56, Hasbani No. 77 Vajra, Village Taraf Jodhpur, Ludhiana, Punjab-141005, Owned By Smt. Meena W/O Sh. Sunil Kumar, And Bounded As: East: Road 13 Ft. West: Bay 13 Ft. North: Bansan Dasa 33, South: Neighbour 39 Ft.

DESCRIPTION OF IMMovable PROPERTY/PROPERTIES MORTGAGED: All That Piece And Parcel Of Khanna No. 1511, 12, 13, 16, 19, 20, 211, 22, 23, Khata No. 232223, Jambhadra Of The Years 2006-07, Hasbani No. 77 Vajra, Situated In Near Gopal Nagar, Tehsil And District Ludhiana, Owned By Mohammad Umar Farooque, And Bounded As: East: Street, 15'0", West: Street 17'0", North: Neighbour 38'0", South: Neighbour 28'5".

We hereby call upon the borrower stated herein to pay us within 60 days from the date of this notice, the outstanding amount (together with further interest thereon plus cost, charges, expenses, etc. thereon) which we shall be at liberty to enforce the security interest (including but not limited to taking possession of and selling the secured asset) entirely at your risk as to the cost and consequences.

Please note that as per section 13(1) of the SARFAESI Act, all of you are prohibited from transferring by way of sale, lease, otherwise, the aforesaid secured assets without prior written consent of the Company. Any contravention of the said section by you shall invoke the penal provisions as laid down under section 29 of the SARFAESI Act and / or any other provision in this regard. Please note that as per sub-section (3) of section 13 of the Act, if the powers of ABHFL, together with all costs, charges and expenses incurred by ABHFL, are tendered to ABHFL, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL, and no further sale shall be taken by ABHFL, or transfer of that secured asset.

Date: 20.05.2024
Place: Ludhiana
Sd/- Authorised Officer
(Aditya Birla Housing Finance Limited)

IDFC First Bank Limited
 (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)
 CIN : L65110TN2416CL037792
 Registered Office : KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpat, Chennai- 600031.
 Tel : +91 44 4564 4000 | Fax : +91 44 4564 4022

**APPENDIX IV (Rule 8(1))
 POSSESSION NOTICE
 (For immovable property)**

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(1) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 21.02.2024 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors 1. MANJINDER KAUR, 2. GURINDERJI SINGH, 3. RAJ KAJRA to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 12,53,238.33/- (Rupees Twelve Lakh Fifty Three Thousand Two Hundred Thirty Eight and Thirty Nine Paise Only) as on 22.02.2024 within 60 days from the date of receipt of the said Demand notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 16th day of May 2024.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of THE IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs. 12,53,238.33/- (Rupees Twelve Lakh Fifty Three Thousand Two Hundred Thirty Eight and Thirty Nine Paise Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions sub-section (8) Of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable properties.

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT PVT NO.3, 4MIN, ADMEASURING 124.37 SQ. YARDS I.E. 1193.3 SQ. FT., KHASRA NO.58 MIN, AREA AMRITSAR URBAN CIRCLE NO. 109, ABADI AMARKOT, G.T. ROAD, AMRITSAR, PUNJAB-143001, AND, BOUNDED AS-EAST: JAGMOHAN SINGH WEST: ROAD, NORTH: OWNERSHIP OF OTHERS SOUTH: DALIP KAUR & OTHERS

Date: 16th May 2024
 Place: Amritsar
 Loan Account No: 14638665
 Authorised Officer
 IDFC FIRST Bank Limited
 (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED
 Registered Office: Indian Rayon Compound, Varval, Gujarat-382256. Branch office at Aditya Birla Housing Finance Limited, SCO-19-12, 1st Floor, Agrs Tower, Perza Gandhi market, Ludhiana-Punjab-141001

**APPENDIX IV
 (See Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
 Possession Notice (For Immovable Property)**

Whereas the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (S4 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(1) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued a Demand notice dated 20-07-2023 calling upon the borrower Kavita Rani (In the Capacity Of Available Legal Heir of Ramesh Sharma) & Kavita Rani seeking repayment of the amount mentioned in the notice being Rs. 3,24,865.17/- (Rupees Three Lakh Twenty Four Thousand Eight Hundred Sixty Six and Seventeen Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 16th Day of May of the year, 2024.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 3,24,865.17/- (Rupees Three Lakh Twenty Four Thousand Eight Hundred Sixty Six and Seventeen Paise Only) and interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMovable PROPERTY
 All That Piece And Parcel Of Khanna No. 51,52, Khata No. 6027214, Wasika No. 18803, Situated At Village Lohara, H.B. No. 280 Abas Azad Nagar, Near Shimla Pun Tehsil & Distt. Ludhiana, Punjab.

Date: 16/05/2024
 Place: Ludhiana
 Authorised Officer
 Aditya Birla Housing Finance Limited

TRIDENT GROUP
 Being different is normal
TRIDENT LIMITED
 Regd. Office: Trident Group, Sanghera, Barnala, Punjab, India - 148101
 CIN: L99999PB1990PLC012007 | Toll Free No 1800-180-2999 | Fax: 0161-5039900
 Website: www.tridentindia.com | E-mail: investor@tridentindia.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2024
 (Rs in Millions)

S. No.	Particulars	Consolidated				
		31.03.2024 (Refer note b)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Refer note b)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations	17,004.5	18,491.1	15,803.3	68,665.9	63,566.2
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	781.5	1,463.3	1,728.8	4,767.0	5,786.8
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	781.5	1,463.3	1,728.8	4,768.5	5,790.6
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	590.1	1,093.1	1,306.6	3,499.9	4,416.1
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	553.9	1,120.9	1,562.0	3,240.9	4,472.1
6.	Paid-up Equity Share Capital	5,096.0	5,096.0	5,096.0	5,096.0	5,096.0
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				31,130.2	29,867.5
8.	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	1. Basic:	0.11	0.22	0.26	0.69	0.88
	2. Diluted:	0.11	0.22	0.26	0.69	0.88

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
 b) The figures for the last quarter of the current year and previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date unaudited figures as upto third quarter of the financial year of the current year and previous year which were subjected to a limited review.
 c) The full Quarter and Financial Year ended Standalone and Consolidated Financial Results are available on Company's website i.e. www.tridentindia.com and the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com
 d) The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder.
 e) Additional Information on Standalone financial results are as follows:

S. No.	Particulars	Standalone				
		31.03.2024 (Refer note b)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Refer note b)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations	16,996.0	18,370.4	15,709.7	67,903.2	62,912.7
2.	Net Profit for the period before Tax	841.3	1,438.7	1,556.5	5,162.7	5,542.9
3.	Net Profit for the period after Tax	641.9	1,074.2	1,164.0	3,895.8	4,219.0
4.	Total Comprehensive Income	604.8	1,101.8	1,418.4	3,634.2	4,273.9

f) The above results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meeting held on May 18, 2024.

By Order of the Board of Directors
 For Trident Limited
 Sd/-
 Deepak Nanda
 Managing Director
 DIN: 00403335

Date: May 18, 2024
 Place: Sanghera

UNIROYAL INDUSTRIES LTD.
 Regd. & Corporate Office : 365, Phase-II, Indl. Estate, Panchkula- 134113
 Ph.No. : 2593592, 5066531-33 Fax : 0172-2591937. (CIN : L18101HR1993PLC033167)

EXTRACT OF CONSOLIDATED / STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER/ YEAR ENDED 31st March, 2024

Quarter Ended	CONSOLIDATED		Sr. No.	Particulars	STANDALONE		(Rs. in lakhs)
	Year Ended	Year Ended			Year to Date	Year Ended	
31-Mar-24	31-Mar-23	31-Dec-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24
Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited	Audited	Un-audited	Un-audited	Audited
2,462.30	2,873.89	2,541.57	10,028.67	11,324.13	425.51	361.94	613.74
32.77	(21.72)	152.67	63.34	(95.00)	1.40	(62.36)	167.62
32.77	(21.72)	152.67	63.34	(95.00)	1.40	(62.36)	167.62
56.32	(4.76)	152.67	86.17	(87.71)	28.37	(26.13)	167.62
52.26	(10.96)	150.95	87.17	(86.68)	24.31	(32.33)	165.90
826.87	826.87	826.87	826.87	826.87	826.87	826.87	826.87
			1,110.59	1,023.41			853.09
0.63	(0.13)	1.83	1.05	(1.05)			
0.63	(0.13)	1.83	1.05	(1.05)	0.29	(0.39)	2.01
					0.29	(0.39)	2.01

NOTES:
 1. The above Consolidated/ Standalone audited financial results for the quarter/year ended 31st March, 2024 and statement of assets & liabilities as on 31st March, 2024 has been reviewed by the Audit Committee and there after approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 17th May 2024. The Statutory Auditors of the company has carried out an audit of the above standalone and consolidated financial results for the year ended 31st March, 2024 pursuant to unmodified opinion.
 2. The Consolidated/ Standalone figures for the quarter ended March 31, 2024 and March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were subjected to limited review and not subjected to audit.
 3. The audited financial results consolidated for the year ended 31st March, 2024 includes results of 100% subsidiary (i) o/a M Textiles and Knitwears Limited.
 4. The Financial Results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016. These Financial Results have been prepared in accordance with the recognition & measurements principles in IND AS 34 interim Financial Reporting prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rules issued thereunder & the other accounting principles generally accepted.
 5. Shareholders holding shares in Physical mode are requested to update their PAN, Address with PIN Code, Email address, Mobile number, Bank account details and Nomination in compliance to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/PCIR/2023/37 dated March 16, 2023 by submitting the documents/details to our Registrar their records by submitting the same with their Depository Participants.
 6. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ yearly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulations 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the stock exchange website at www.bseindia.com and also on the company's website at www.uniroyalgroup.com.

Place : Panchkula
 Dated : 17th May, 2024

For GOPAL BHARGAVA & CO.
 Chartered Accountants
 (Gopal Bhargava) Proprietor
 Membership No. 531619
 Firm Registration No. 026816N

For Uniroyal Industries Ltd.
 (Akhil Mahajan) Executive Director
 DIN : 0007598
 As per our attached report of event date

Markets, Markets, Insight Out

Markets, Monday to Saturday

To book your copy,
 sms reaches to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
 Group of Publications

संक्षेप में

संजीव पुरी ने संभाला सीआईआई में पदभार

आईटीएम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के अध्यक्ष पद संभाल लिया है।

सवाल जवाब

3 साल में 65,000 करोड़ रु. का करंगे निवेश

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील का समेकित शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में तेजी से गिरा है।



खून किए जाने से कोमलें भी कम हो गईं। परिणामस्वरूप मार्जिन कम हो गया। लेकिन बाजार के नजरिये से हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया।

युवाव के टौंगन मांग सुस्त हो गई है। पिछली तिमाही में कम कोमल वाले आयात और युवाव से पहले आर्थिक गतिविधियों धीमी होने के कारण मांग कुछ धीमी हो गई थी।

एल्यूमीनियम के उपाय शामिल हैं। हालांकि आयात-निर्यात के कुल आकार पर शायद प्रभाव उतना ज्यादा न हो। लेकिन हमारे लिए चीन की दरमियां समझना जरूरी है क्योंकि हम भौतिक रूप में उसके नजदीक हैं।

क्या आपने वित्त वर्ष 31 तक 5.1 करोड़ टन के लक्ष्य के लिए निवेश की जरूरत पर काम किया है? हां, हमने कर लिया है। लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि अगले तीन साल में हम डालने के लिए घोषित नए पूंजीगत व्यय का निवेश करेंगे।

दिल्ली और काहिरा को जोड़ेगी इजिप्टियर

मिच और भारत के बीच बढ़ती आवागमन से प्रोत्साहित होकर, इजिप्टियर दिल्ली और काहिरा को जोड़ने वाली रैपिड उड़ानें संचालित करने पर विचार कर रही है।

इस साल 43 हजार करोड़ रु. का निवेश करेगी टाटा मोटर्स

सोहिनी दास मुर्दा, 19 मई



प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2024-25 में नए उत्पाद पेश करने पर और प्रौद्योगिकियों के लिए 43 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

एआई के बेहतर इस्तेमाल से रोजगार बढ़ेगा

रैड हैट भारत को दुनिया के तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक के रूप में देखती है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पेट रिक्स का कहना है कि देश का बढ़ता उद्यम आधार और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से रोजगार बढ़ेगा।

मांग बढ़ने पर महिंद्रा एंड महिंद्रा हाइब्रिड तकनीक पर करेगी विचार!

सोहिनी दास मुर्दा, 19 मई



प्रमुख वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएईएम) साल 2030 तक सात इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर हाइब्रिड तकनीक की मांग आई तो कंपनी उस पर भी विचार करेगी।

साल 2030 तक ईवी पेश करेगी कंपनी

अब कंपनी ईवी और एलएनएस इनवेलो काहानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही साल 2030 तक ईवी पेश करेगी।

'ऊंचा हवाई किराया एक बड़ी चुनौती'

धर्मिय कृष्ण इंडिया के कार्यकारी चेयरमैन माधवन मेनन ने कहा है कि ऊंचा हवाई किराया एक चुनौती बना हुआ है, जो भारत में उड़ानों में घटने वाले और व्यावसायिक यात्रियों को प्रभावित करेगा।

प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2024-25 में नए उत्पाद पेश करने पर और प्रौद्योगिकियों के लिए 43 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

SBBI (State Bank of India) advertisement with logo and contact information.

यूनियनल इंडस्ट्रीज लि.

Table with financial data for Unional Industries Ltd. including revenue, profit, and other metrics for various periods.

जेएसए स्टीवर्डार्ड लिबोरेटरीज लिमिटेड

Table with financial data for J.S. Stevards & Liboratories Ltd. including revenue, profit, and other metrics.

Advertisement for Unional Industries Ltd. with contact details and website information.

Advertisement for Unional Industries Ltd. with contact details and website information.

Advertisement for J.S. Stevards & Liboratories Ltd. with contact details and website information.